



Series RRSS2/2



SET-3

प्रश्न-पत्र कोड  
Q.P. Code

64/2/3

रोल नं. 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
Roll No.

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।  
Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

नोट

- (I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित (I) पृष्ठ 23 + 2 मानचित्र हैं।
- (II) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में (II) 30 प्रश्न हैं।
- (III) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए (III) प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- (IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से (IV) पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- (V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का (V) समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

NOTE

- Please check that this question paper contains 23 printed pages + 2 Maps.
- Please check that this question paper contains 30 questions.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

## भूगोल (सैद्धान्तिक) GEOGRAPHY (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 70

64/2/3-12

1



P.T.O.



### सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क – प्रश्न संख्या 1 से 17 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) खण्ड ख – प्रश्न संख्या 18 एवं 19 स्रोत-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (v) खण्ड ग – प्रश्न संख्या 20 से 23 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। इन प्रश्नों का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखा जाना चाहिए।
- (vi) खण्ड घ – प्रश्न संख्या 24 से 28 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। इन प्रश्नों का उत्तर 120 से 150 शब्दों में लिखा जाना चाहिए।
- (vii) खण्ड ङ – प्रश्न संख्या 29 एवं 30 मानचित्र-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (viii) इसके अतिरिक्त, ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए फोटो तथा मानचित्र आदि आधारित प्रश्नों के स्थान पर एक अन्य प्रश्न दिया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थी ही लिखें।
- (ix) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।

### खण्ड क

प्रश्न संख्या 1 से 17 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं।

17×1=17

1. स्तम्भ I का मिलान स्तम्भ II से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए :

स्तम्भ I (क्षेत्र)		स्तम्भ II (पशुपालन)
1. उष्णकटिबंधीय अफ्रीका	(i)	ऊँट
2. एशिया के मरुस्थल	(ii)	गोधन (मवेशी)
3. तिब्बत के पर्वतीय क्षेत्र	(iii)	रेंडियर
4. उप-उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र	(iv)	लामा

विकल्प :

- (A) 1-(ii), 2-(i), 3-(iv), 4-(iii)
- (B) 1-(i), 2-(ii), 3-(iv), 4-(iii)
- (C) 1-(ii), 2-(i), 3-(iii), 4-(iv)
- (D) 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv)

2. 2020 में निम्नलिखित देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च था ?

- (A) डेनमार्क
- (B) नॉर्वे
- (C) नीदरलैंड
- (D) स्विट्ज़रलैंड



### General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) This questions paper contains **30** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) Question paper is divided into **five** sections – **Sections A, B, C, D and E**.
- (iii) **Section A** – Questions no. **1 to 17** are Multiple Choice type questions. Each question carries **1** mark.
- (iv) **Section B** – Questions no. **18 and 19** are Source-based questions. Each question carries **3** marks.
- (v) **Section C** – Questions no. **20 to 23** are Short Answer type questions. Each question carries **3** marks. Answer to these questions shall be written in **80 to 100** words.
- (vi) **Section D** – Questions no. **24 to 28** are Long Answer type questions. Each question carries **5** marks. Answer to these questions shall be written in **120 to 150** words.
- (vii) **Section E** – Questions no. **29 and 30** are Map-based questions. Each question carries **5** marks.
- (viii) In addition to this, **NOTE** that a separate question has been provided for Visually Impaired candidates in lieu of questions having visual inputs, map etc. Such questions are to be attempted by Visually Impaired candidates only.
- (ix) There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in a few questions in all sections other than Section A.

### SECTION A

Questions no. **1 to 17** are Multiple Choice Type Questions.

$17 \times 1 = 17$

1. Match Column I with Column II and choose the correct option :

Column I

(Area)

1. Tropical Africa
2. Asiatic Deserts
3. Mountainous areas of Tibet
4. Sub-Arctic areas

Column II

(Animal Domestication)

- (i) Camel
- (ii) Cattle
- (iii) Reindeer
- (iv) Llamas

Options :

- (A) 1-(ii), 2-(i), 3-(iv), 4-(iii)
- (B) 1-(i), 2-(ii), 3-(iv), 4-(iii)
- (C) 1-(ii), 2-(i), 3-(iii), 4-(iv)
- (D) 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv)

2. Which of the following countries was at the highest rank in Human Development Index in 2020 ?

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (A) Denmark     | (B) Norway      |
| (C) Netherlands | (D) Switzerland |





3. प्रवास के निम्नलिखित कारकों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपकर्ष कारकों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए :

- |      |                     |
|------|---------------------|
| I.   | शांति एवं स्थायित्व |
| II.  | प्रतिकूल जलवायु     |
| III. | संपत्ति की सुरक्षा  |
| IV.  | आर्थिक पिछड़ापन     |

विकल्प :

- (A) केवल I और II सही हैं ।  
(B) केवल I और III सही हैं ।  
(C) केवल II और IV सही हैं ।  
(D) केवल II और III सही हैं ।

4. निम्नलिखित में से कौन-सी बीमारी जल प्रदूषण से होती है ?

- (A) हेपेटाइटिस (B) दमा  
(C) न्यूमोनिया (D) बहरापन

5. 'स्वच्छ भारत मिशन' निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया ?

- (A) मध्य प्रदेश सरकार  
(B) भारत सरकार  
(C) गैर-सरकारी संगठन  
(D) विश्व स्वास्थ्य संगठन

6. प्रस्तावित भारतमाला वृहद् योजना से संबंधित कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए :

- |      |   |
|------|---|
| I.   | पिछड़े इलाकों, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना |
| II.  | देश के चार महानगरों को परस्पर जोड़ना                        |
| III. | तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास करना    |
| IV.  | सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना                |

विकल्प :

- (A) केवल I, II और III सही हैं । (B) केवल II, III और IV सही हैं ।  
(C) केवल I, III और IV सही हैं । (D) केवल I, II और IV सही हैं ।





3. Read the following factors of migration carefully and choose the correct option related to pull factors :

- |      |                        |
|------|------------------------|
| I.   | Peace and stability    |
| II.  | Unfavourable climate   |
| III. | Protection of property |
| IV.  | Economic backwardness  |

Options :

- (A) Only I and II are correct.  
(B) Only I and III are correct.  
(C) Only II and IV are correct.  
(D) Only II and III are correct.

4. Which one of the following diseases is caused by water pollution ?

- (A) Hepatitis (B) Asthma  
(C) Pneumonia (D) Deafness

5. 'Swachh Bharat Mission' has been launched by which one of the following ?

- (A) Government of Madhya Pradesh  
(B) Government of India  
(C) Non Governmental Organisation  
(D) World Health Organisation

6. Read the programmes related to the proposed Bharatmala umbrella scheme carefully and choose the correct option :


- |      |   |
|------|---|
| I.   | Backward areas, religious and tourist places connectivity programme |
| II.  | To interconnect the four metropolitan cities of the country         |
| III. | To develop State roads in adjoining coastal areas                   |
| IV.  | To connect non-major ports in coastal states                        |

Options :

- (A) Only I, II and III are correct. (B) Only II, III and IV are correct.  
(C) Only I, III and IV are correct. (D) Only I, II and IV are correct.



7. फ्लो चार्ट में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए :



विकल्प :

- (A) सोना (B) बॉक्साइट  
(C) ग्रैफाइट (D) मैंगनीज़

8. निम्नलिखित में से किसे 'बिग इंच' पाइपलाइन द्वारा जाना जाता है ?


- (A) ईरान – भारत वाया पाकिस्तान  
(B) ईरान – चीन वाया अफगानिस्तान  
(C) हज़ीरा – विजयपुर से जगदीशपुर  
(D) मेक्सिको की खाड़ी से उत्तर-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका

9. 'वर्षा निर्भर कृषि' का दूसरा नाम क्या है ?

- (A) उत्पादक कृषि  
(B) संरक्षित कृषि  
(C) बारानी  
(D) ज़ायद



7. Choose the correct option to fill in the blank in the flow chart :



Options :

- (A) Gold (B) Bauxite  
(C) Graphite (D) Manganese

8. Which one of the following is known as 'Big Inch' pipeline ?

- (A) Iran – India via Pakistan  
(B) Iran – China via Afghanistan  
(C) Hazira – Vijaypur to Jagdishpur  
(D) Gulf of Mexico to northeastern USA

9. What is the other name of 'Rainfed type of farming' ?

- (A) Productive farming  
(B) Protective farming  
(C) Barani  
(D) Zaid





10. नीचे दो कथन दिए गए हैं । ये अभिकथन (A) और कारण (R) हैं । दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए :
- अभिकथन (A) : मुक्त व्यापार के अंतर्गत डंप की गई वस्तुओं से देशों को सतर्क रहने की आवश्यकता है ।
- कारण (R) : डंप की गई वस्तुओं से घरेलू उत्पादकों को नुकसान हो सकता है ।
- विकल्प :
- (A) (A) सही है, परंतु (R) ग़लत है ।
- (B) (A) ग़लत है, परंतु (R) सही है ।
- (C) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या **नहीं** है ।
- (D) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है ।
11. निम्नलिखित में से कौन-सा 'पूर्व-पश्चिम गलियारे' का पश्चिमी टर्मिनल स्टेशन है ?
- (A) गाँधीनगर (B) पोरबंदर
- (C) वडोदरा (D) जामनगर
12. फुटकर व्यापार की निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए :
- I. यह उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है ।

II. अधिकांश फुटकर व्यापार नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है ।

III. इसका गठन अनेक बिचौलियों, व्यापारियों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा होता है ।

IV. फेरी, रेहड़ी, स्वचालित बिक्री मशीनें, आदि इसके उदाहरण हैं ।
- विकल्प :
- (A) केवल I, II और III सही हैं ।
- (B) केवल I, II और IV सही हैं ।
- (C) केवल II, III और IV सही हैं ।
- (D) केवल I, III और IV सही हैं ।
13. सूचना का उत्पादन निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक से संबंधित है ?
- (A) प्राथमिक
- (B) द्वितीयक
- (C) तृतीयक
- (D) चतुर्थक





10. Two statements are given below. They are Assertion (A) and Reason (R). Read both the statements carefully and choose the correct option :  
*Assertion (A) :* Countries need to be cautious about dumped goods under free trade.  
*Reason (R) :* Dumping of goods can harm the domestic producers.  
Options :  
(A) (A) is true, but (R) is false.  
(B) (A) is false, but (R) is true.  
(C) Both (A) and (R) are true, but (R) is **not** the correct explanation of (A).  
(D) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
11. Which one of the following is the western terminal station of 'East-West Corridor' ?  
(A) Gandhinagar (B) Porbandar  
(C) Vadodara (D) Jamnagar
12. Read the following characteristics of retail trading carefully and choose the correct option :
- |      |  |
|------|--|
| I.   | This is concerned with the sale of goods directly to the consumers.          |
| II.  | Most of the retail trading takes place in fixed establishments or stores.    |
| III. | It is formed by many middlemen, traders and suppliers.                       |
| IV.  | Hawkers, street peddling, automatic vending machines, etc. are its examples. |
- Options :  
(A) Only I, II and III are correct.  
(B) Only I, II and IV are correct.  
(C) Only II, III and IV are correct.  
(D) Only I, III and IV are correct.
13. Production of information is related to which one of the following sectors ?  
(A) Primary  
(B) Secondary  
(C) Tertiary  
(D) Quaternary



14. नीचे दो कथन दिए गए हैं। ये अभिकथन (A) और कारण (R) हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए :


अभिकथन (A) : स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित हो सकते हैं।

कारण (R) : स्वच्छंद उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण कारक परिवहन के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है।

विकल्प :

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।  
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।  
(C) (A) सही है, परंतु (R) ग़लत है।  
(D) (A) ग़लत है, परंतु (R) सही है।

निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या 15 से 17 तक के उत्तर लिखिए।



15. 1950 - 51 की तुलना में, वर्ष 2014 - 15 में निम्नलिखित में से किस वर्ग में सर्वाधिक कमी हुई है ?

- (A) वन  
(B) स्थायी चरागाहें  
(C) बंजर व व्यर्थ-भूमि  
(D) कृषि योग्य व्यर्थ-भूमि





14. Two statements are given below. They are Assertion (A) and Reason (R). Read both the statements carefully and choose the correct option :


*Assertion (A)* : Foot loose industries can be located in a wide variety of places.

*Reason (R)* : The important factor in the location of foot loose industries is accessibility by transport network.

Options :

- (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).  
(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is **not** the correct explanation of (A).  
(C) (A) is true, but (R) is false.  
(D) (A) is false, but (R) is true.

Study the following diagram carefully and answer Q. No. 15 to 17.



15. In comparison to 1950 - 51, which of the following categories has decreased the most in 2014 - 15 ?

- (A) Forests  
(B) Permanent pasture and grazing land  
(C) Barren and unculturable wasteland  
(D) Culturable wasteland



16. 1950 – 51 की तुलना में, वर्ष 2014 – 15 में निम्नलिखित में से किस वर्ग में वृद्धि का सर्वाधिक अंतर है ?
- (A) बंजर व व्यर्थ-भूमि  
(B) निवल बोया क्षेत्र  
(C) गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि  
(D) वर्तमान परती भूमि
17. 1950 – 51 तथा 2014 – 15 के बीच 'निवल बोया क्षेत्र' का सही अंतर निम्नलिखित में से कौन-सा है ?
- (A) 3.6% (क्षेत्र का)  
(B) 3.7% (क्षेत्र का)  
(C) 3.8% (क्षेत्र का)  
(D) 3.9% (क्षेत्र का)

**नोट :** निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 15 से 17 के स्थान पर हैं ।

15. निम्नलिखित में से कौन-सा बंजर व व्यर्थ-भूमि का उदाहरण है ?
- (A) स्थायी चरागाह  
(B) मरुस्थल और बीहड़  
(C) आधारभूत अवसंरचना में प्रयुक्त भूमि  
(D) बस्तियों में प्रयुक्त भूमि
16. अगर कोई भू-भाग पाँच वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है, तो वह निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है ?
- (A) वर्तमान परती भूमि  
(B) कृषि योग्य व्यर्थ-भूमि  
(C) बंजर भूमि  
(D) वर्तमान परती के अतिरिक्त परती भूमि
17. भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा विभाग भू-उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है ?
- (A) राजस्व (B) आयकर  
(C) बिक्री कर (D) संपदा





16. In comparison to 1950 – 51, which one of the following categories has the highest difference of increase in 2014 – 15 ?
- (A) Barren and unculturable wasteland  
(B) Net area sown  
(C) Area under non-agricultural uses  
(D) Current fallow
17. Which one of the following is the correct difference in 'Net Area Sown' between 1950 – 51 and 2014 – 15 ?
- (A) 3.6% (of reporting area)  
(B) 3.7% (of reporting area)  
(C) 3.8% (of reporting area)  
(D) 3.9% (of reporting area)

**Note :** The following question is for the **Visually Impaired Candidates** only in lieu of Q. No. 15 to 17.

15. Which of the following is an example of barren and unculturable wasteland ?
- (A) Permanent pasture  
(B) Desert and ravines  
(C) Land used for infrastructure  
(D) Land used in settlements
16. If any land remains uncultivated for more than five years, then it falls in which of the following categories ?
- (A) Current fallow land  
(B) Culturable wasteland  
(C) Barren land  
(D) Fallow other than current fallow
17. Which of the following departments maintains the record of land-use in India ?
- (A) Revenue (B) Income Tax  
(C) Sales Tax (D) Estate



## खण्ड ख

प्रश्न संख्या 18 एवं 19 स्रोत-आधारित प्रश्न हैं ।

2×3=6

18. दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1+1+1=3

### भू-निम्नीकरण

कृषि योग्य भूमि पर दबाव का कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं, वरन इसकी गुणवत्ता में कमी भी इसका कारण है । मृदा अपरदन, लवणता (जलाक्रांतता) तथा भू-क्षारता से भू-निम्नीकरण होता है । भू-उर्वरकता के अप्रबंधन के साथ इसका अविरल उपयोग होने पर क्या स्थिति होगी ? भू-निम्नीकरण होगा तथा उत्पादकता में कमी आएगी । भू-निम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी है ।

यद्यपि सभी निम्नकोटि भूमियाँ व्यर्थ भूमि नहीं हैं, लेकिन अनियंत्रित प्रक्रियाएँ इसे व्यर्थ भूमि में परिवर्तित कर देती हैं ।

भू-निम्नीकरण दो प्रक्रियाओं द्वारा तीव्रता से होता है । ये प्रक्रियाएँ प्राकृतिक तथा मानवजनित हैं । भारतीय दूर-संवेदन संस्थान ने व्यर्थ भूमि को दूर-संवेदन तकनीक की सहायता से सीमांकित किया है और इन प्रक्रियाओं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है । जैसे – प्राकृतिक खड्ड, मरुस्थलीय या तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली भूमि तथा हिमानी क्षेत्र । ये मुख्यतः प्राकृतिक कारकों द्वारा घटित हुई हैं । प्राकृतिक तथा मानवजनित प्रक्रियाओं से निम्नकोटि भूमियों में जलाक्रांत व दलदली क्षेत्र, लवणता व क्षारता से प्रभावित भूमियाँ; झाड़ी सहित व झाड़ियों रहित भूमियाँ आदि सम्मिलित हैं । कुछ अन्य निम्नकोटि भूमियाँ भी हैं जैसे – स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र, रोपण कृषि जनित, क्षरित वन, क्षरित चरागाह तथा खनन व औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र जो मानवीय प्रक्रियाओं से कृषि के अयोग्य हुई हैं ।

(18.1) 'भू-निम्नीकरण' के अर्थ को स्पष्ट कीजिए ।

1

(18.2) किसी एक मानवजनित प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जो 'भू-निम्नीकरण' के लिए जिम्मेदार है ।

1

(18.3) 'भू-निम्नीकरण' की समस्या के समाधान के लिए कोई दो उपाय सुझाइए ।

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$





## SECTION B

Questions number 18 and 19 are Source-Based Questions.

2×3=6

18. Read the given passage carefully and answer the questions that follow :

1+1+1=3

### Land Degradation

The pressure on agricultural land increases not only due to the limited availability but also by deterioration of quality of agricultural land. Soil erosion, waterlogging, salinisation and alkalinisation of land lead to land degradation. What happens if land is consistently used without managing its fertility ? Land is degraded and productivity declines. Land degradation is generally understood either as a temporary or a permanent decline in productive capacity of the land.

Though all degraded land may not be wasteland, but unchecked process of degradation may lead to the conversion to wasteland.


There are two processes that induce land degradation. These are natural and created by human beings. National Remote Sensing Centre (NRSC) has classified wastelands by using remote sensing techniques and it is possible to categorise these wastelands according to the processes that have created them. There are a few types of wastelands such as gullied/ravinous land, desertic or coastal sands, barren rocky areas, steep sloping land, and glacial areas, which are primarily caused by *natural* agents. There are other types of degraded lands such as waterlogged and marshy areas, land affected by salinity and alkalinity and land with or without scrub, which have largely been caused by *natural as well as human factors*. There are some other types of wastelands such as degraded shifting cultivation area, degraded land under plantation crops, degraded forests, degraded pastures, and mining and industrial wastelands, that are caused by human action.

- (18.1) Explain the meaning of 'land degradation'. 1
- (18.2) Explain any one man-made process which is responsible for 'land degradation'. 1
- (18.3) Suggest any two measures to solve the problem of 'land degradation'.  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$



19. दिए गए मानचित्र का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए :

1+1+1=3



(19.1) मानचित्र में दिए गए रेलमार्ग का नाम लिखिए ।

1

(19.2) दिए गए मानचित्र पर अंकित '(A)' और '(B)' स्थानों के नाम लिखिए ।

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

(19.3) मानचित्र पर दिए गए रेलमार्ग के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए ।

1

**नोट :** निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 19 के स्थान पर है ।


‘ऑस्ट्रेलियाई पार-महाद्वीपीय रेलमार्ग’ की किन्हीं तीन विशेषताओं की व्याख्या कीजिए ।  $3 \times 1 = 3$





19. Study the given map and answer the questions that follow :

1+1+1=3



(19.1) Name the railway line given in the map. 1

(19.2) Name the places marked as '(A)' and '(B)' in the given map.  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

(19.3) Explain the importance of the railway line given on the map. 1

**Note :** The following question is for the **Visually Impaired Candidates** only in lieu of Q. No. 19.

Explain any three characteristics of the 'Australian Trans-Continental Railway'.

3×1=3





### खण्ड ग

प्रश्न संख्या 20 से 23 लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं ।

4×3=12

20. (क) प्रौद्योगिकी के उपयोग से लोग किस प्रकार प्राकृतिक अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम हुए हैं ? विश्लेषण कीजिए । 3
- अथवा
- (ख) मानव – पर्यावरण संबंधों की दो संकल्पनाओं के बीच नवनिश्चयवाद किस प्रकार से संतुलन बनाने का प्रयास करता है ? विश्लेषण कीजिए । 3
21. विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं तीन भौतिक कारकों की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए । 3
22. विकास के आधार पर भारतीय नगरों के वर्गीकरण की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए । 3
23. (क) मानव विकास के मध्यम स्तर वाले देशों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए । 3
- अथवा
- (ख) मानव विकास के 'आधारभूत आवश्यकता उपागम' की किन्हीं तीन विशेषताओं की व्याख्या कीजिए । 3

### खण्ड घ

प्रश्न संख्या 24 से 28 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं ।

5×5=25

24. (क) भारत में रेल परिवहन के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । 5
- अथवा
- (ख) भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में समुद्री पत्तन की व्याख्या कीजिए । 5
25. कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत पाँच प्रकार के उद्योगों की व्याख्या कीजिए । 5
26. (क) भारत में किशोर जनसंख्या की प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए । समस्याओं के समाधान के लिए दो उपाय सुझाइए । 3+2=5
- अथवा
- (ख) जेंडर के आधार पर भेदभाव किस प्रकार मानवता के प्रति अपराध है ? समस्या के समाधान के लिए दो उपाय सुझाइए । 3+2=5



## SECTION C

Questions number 20 to 23 are Short Answer Type Questions.

4×3=12

20. (a) How has the use of technology helped people to overcome nature's obstacles ? Analyse. 3
- OR**
- (b) How does neo-determinism try to achieve balance between two concepts of man – environment relationship ? Analyse. 3
21. Explain with examples, any three physical factors affecting the distribution of world population. 3
22. Explain with examples, the classification of Indian towns on the basis of their evolution. 3
23. (a) Explain the characteristics of countries falling under medium level of human development. 3
- OR**
- (b) Explain any three characteristics of 'Basic Needs Approach' of human development. 3

## SECTION D

Questions number 24 to 28 are Long Answer Type Questions.

5×5=25

24. (a) Explain the importance of rail transport in India. 5
- OR**
- (b) Explain sea port as a gateway for international trade in India. 5
25. Explain five types of industries classified on the basis of raw materials. 5
26. (a) Analyse the major problems of youth population in India. Suggest two measures to overcome the problems. 3+2=5
- OR**
- (b) How is discrimination on the basis of gender a crime against humanity ? Suggest two measures to overcome the problem. 3+2=5



27. “भारत में धरातलीय व भौमजल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है ।” पंजाब और हरियाणा से उदाहरण देते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए । 5
28. (क) विश्व में ‘रोपण कृषि’ की किन्हीं पाँच विशेषताओं का वर्णन कीजिए । 5
- अथवा**
- (ख) विश्व में ‘विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि’ की किन्हीं पाँच विशेषताओं का वर्णन कीजिए । 5

### खण्ड ड

प्रश्न संख्या 29 एवं 30 मानचित्र आधारित प्रश्न हैं । 2×5=10

29. दिए गए विश्व के राजनीतिक रेखा-मानचित्र (पृष्ठ 25 पर), में सात भौगोलिक लक्षणों को A, B, C, D, E, F और G के रूप में अंकित किया गया है । निम्नलिखित जानकारी की सहायता से किन्हीं पाँच की पहचान कीजिए और उनके सही नाम उनके समीप खींची गई रेखाओं पर लिखिए : 5×1=5
- A. ‘विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि’ का एक क्षेत्र
- B. ‘पार-साइबेरियन रेलमार्ग’ के अंतिम सिरे का (टर्मिनल) स्टेशन
- C. ‘चलवासी पशुचारण’ का एक क्षेत्र
- D. ‘वाणिज्य पशुधन पालन’ का एक क्षेत्र
- E. एशिया का एक प्रमुख समुद्री पत्तन
- F. यूरोप का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन
- G. एक प्रमुख नौ-परिवहन नहर

**नोट :** निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 29 के स्थान पर हैं ।

निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 5×1=5

- (29.1) दक्षिण अमेरिका में स्थित एक ‘विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि’ के प्रमुख क्षेत्र का नाम लिखिए ।
- (29.2) ‘पार-साइबेरियन रेलमार्ग’ के सबसे पूर्वी सिरे के (टर्मिनल) स्टेशन का नाम लिखिए ।
- (29.3) अफ्रीका में एक ‘चलवासी पशुचारण’ क्षेत्र का नाम लिखिए ।





27. "Agriculture accounts for most of the surface and groundwater utilization in India." Support the statement by giving examples from Punjab and Haryana. 5
28. (a) Describe any five features of 'plantation agriculture' in the world. 5
- OR**
- (b) Describe any five features of 'extensive commercial grain farming' in the world. 5

### SECTION E

Questions number 29 and 30 are Map-based questions. 2×5=10

29. On the given political outline map of the **World** (on page 25), seven geographical features have been marked as A, B, C, D, E, F and G. Identify any **five** with the help of the following information and write their correct names on the lines drawn near them : 5×1=5
- A. An area of 'extensive commercial grain farming'
- B. A terminal station of 'Trans-Siberian Railway'
- C. An area of 'nomadic herding'
- D. An area of 'commercial livestock rearing'
- E. A major sea port of Asia
- F. A major international airport of Europe
- G. A major shipping canal

**Note :** The following questions are for **Visually Impaired Candidates** only in lieu of Q. No. 29.

Answer any **five** questions out of the following : 5×1=5

- (29.1) Name a major area of 'extensive commercial grain farming' of South America.
- (29.2) Name the eastern terminal station of 'Trans-Siberian Railway'.
- (29.3) Name an area of 'nomadic herding' in Africa.





- (29.4) दक्षिण अमेरिका के एक प्रमुख 'वाणिज्य पशुधन पालन' वाले देश का नाम लिखिए ।  
(29.5) जापान के उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन स्थित है ।  
(29.6) वैकूवर अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन किस देश में स्थित है ?  
(29.7) भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नौ परिवहन नहर का नाम लिखिए ।

30. दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा-मानचित्र (पृष्ठ 27 पर), में निम्नलिखित सात भौगोलिक लक्षणों में से किन्हीं पाँच को उपयुक्त चिह्नों द्वारा अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए :

5×1=5

- (30.1) सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य  
(30.2) कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य  
(30.3) चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य  
(30.4) महाराष्ट्र की प्रमुख लौह-अयस्क की खानें  
(30.5) उत्तर प्रदेश की एक तेल शोधनशाला  
(30.6) ओडिशा का एक प्रमुख समुद्री पत्तन  
(30.7) असम का एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन

नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 30 के स्थान पर हैं ।

निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

5×1=5

- (30.1) सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम लिखिए ।  
(30.2) उस राज्य का नाम लिखिए जो कपास उत्पादन में अग्रणी है ।  
(30.3) उस राज्य का नाम लिखिए जो चावल उत्पादन में अग्रणी है ।  
(30.4) महाराष्ट्र में लौह-अयस्क की खानों के क्षेत्र का नाम लिखिए ।  
(30.5) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ जामनगर तेल शोधनशाला स्थित है ।  
(30.6) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ तूतीकोरिन समुद्री पत्तन स्थित है ।  
(30.7) असम के उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन स्थित है ।



- (29.4) Name the major country of 'commercial livestock rearing' of South America.
- (29.5) Name the place where a major international airport is located in Japan.
- (29.6) In which country is Vancouver International Airport located ?
- (29.7) Name the shipping canal linking Mediterranean Sea and Red Sea.

**30.** On the given political outline map of **India** (on page 27), locate and label any **five** of the following seven geographical features with appropriate symbols :  $5 \times 1 = 5$

- (30.1) State with highest density of population
- (30.2) State leading in cotton production
- (30.3) State leading in rice production
- (30.4) Major iron-ore mines of Maharashtra
- (30.5) An oil refinery of Uttar Pradesh
- (30.6) A major sea port of Odisha
- (30.7) An international airport of Assam

**Note :** The following questions are for **Visually Impaired Candidates** only in lieu of Q. No. 30.

Answer any **five** questions out of the following :  $5 \times 1 = 5$

- (30.1) Name the state with highest density of population.
- (30.2) Name the state which is leading in cotton production.
- (30.3) Name the state which is leading in rice production.
- (30.4) Name the area of iron-ore mines in Maharashtra.
- (30.5) Name the state where Jamnagar oil refinery is located.
- (30.6) Name the state where Tuticorin sea port is located.
- (30.7) Name the place where an international airport is located in Assam.










प्रश्न सं. 29 के लिए

For question no. 29

संसार-राजनीतिक

WORLD-POLITICAL







प्रश्न सं. 30 के लिए

For question no. 30

